

बयाना क्षेत्र में पकड़ी नकली दूध की डेयरी, 500 लीटर दूध कराया नष्ट

Bharatpur News - सफेद दूध का काला कारोबार बयाना/भरतपुर | नकली दूध बनाने वाले कारोबारियों ने अब भरतपुर जिले में भी अपना कारोबार...

Jan 28, 2020, 07:10 AM IST

सफेद दूध का काला कारोबार

बयाना/भरतपुर | नकली दूध बनाने वाले कारोबारियों ने अब भरतपुर जिले में भी अपना कारोबार फैला लिया है। सोमवार को बयाना पुलिस ने गढ़ी बाजना इलाके के थाना डांग में नकली दूध बनाने की डेयरी पकड़ी। करीब 500 लीटर दूध को नष्ट करवा दिया। इस मामले में पुलिस ने मौके से नकली दूध बनाने में काम आने वाले उपकरण, कैमिकल, क्रीम आदि जब्त करने के साथ ही डेयरी संचालक जनक सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है।

बाद में पुलिस ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित खाद्य विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया। भरतपुर से मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश गुप्ता की टीम ने नकली दूध के नमूने लिए। आरोपी डेयरी संचालक के खिलाफ पुलिस की ओर से खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गढ़ीबाजना एसएचओ कैलाश बैरवा ने बताया कि पंचायत चुनावों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डीएसपी खींव सिंह राठौड़ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया जा रहा था। इस दौरान थाना डांग में एक स्थान पर नकली दूध का कारोबार चलने की सूचना मिली। इस पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जांच में सामने आया कि भोलापुरा निवासी जनक पुत्र अतर सिंह गुर्जर गांव में ही किराए का मकान लेकर दूध की डेयरी चला रहा था। डेयरी में नकली दूध तैयार कर उसे स्थानीय क्षेत्रों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, मथुरा, हाथरस आदि बड़े स्थानों पर दूध की मंडियों में सप्लाई किया जाता है।

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/bharatpur/news/rajasthan-news-fake-milk-dairy-caught-in-earnest-area-500-liter-milk-destroyed-071012-6488911.html>